## शम्भु की शरण में । by Prity Mahajan

शम्भू की शरण में अबकी कावड़ लेने जाउंगी हरिद्वार जाके पावन कावड़ को उठाउंगी

मेरा शिव शंकर देखो बड़ा भोला भाला है जिसने जो माँगा उसको वही दे डाला है मन चाहा वर मैं भी भोले जी से पाउंगी हरिद्वार जाके पावन कावड़ को उठाउंगी

कैलाश पर्वत पे डेरा उसने डाला है सारे जगत का वही रखवाला है उसके चरणों में मैं भी सर को झुकाऊँगी हरिद्वार जाके पावन कावड़ को उठाउंगी

सावन महीना भोले शंकर को मनाऊंगी बेल पत्र भांग धतूरा भोग मैं लगाउंगी अपनी भी अर्ज़ी उनके चरणों में लगाउंगी हरिद्वार जाके पावन कावड़ को उठाउंगी शम्भू की शरण में .......

 $\frac{\text{https://bhaktivandana.com/lyrics/\%e0\%a4\%b6\%e0\%a4\%ae\%e0\%a5\%8d\%e0\%a4\%ad\%e0\%a5\%81-\%e0\%a4\%95}{\text{\%e0\%a5\%80-\%e0\%a4\%b6\%e0\%a4\%b0\%e0\%a4\%a3-\%e0\%a4\%ae\%e0\%a5\%87\%e0\%a4\%82-by-prity-mahajan/}$